

 Sector-5, Saket,
 E-mail : ho@tfciltd.com

 New Delhi-110017
 CIN : L65910DL1989PLC034812

TF/LISTING/23 November 11, 2023

BSE Ltd.	National Stock Exchange of India Ltd.
Phiroze Jeejeebhoy Towers,	Exchange Plaza,
Dalal Street, Fort,	Bandra Kurla Complex,
Mumbai – 400 023	Banda (East),
Scrip Code : 526650	Mumbai – 400 051
	Scrip Code : TFCILTD

Dear Sir,

## **Re: Newspaper Advertisement**

In continuation to our letter dated November 10, 2023 and Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copies of Newspaper advertisement published in the "Financial Express" (in English version) and "Jansatta" (in Hindi version) on November 11, 2023 regarding unaudited financial results of the Company for the quarter/half year ended 30th September, 2023.

This is for your kind information and record.

Yours faithfully,

(Sanjay Ahuja) Company Secretary

	By order of the Board of Directors For AU Small Finance Bank Limited	disclosure of security cover does no
Date: November 10, 2023 Place: Jaipur	Sd/- Manmohan Parnami Company Secretary	Place : New Delhi Date : 10th November, 2023
financialog.epin		

SATURDAY, NOVEMBER 11, 2023

26	
1	

総

## TOURISM FINANCE CORPORATION OF INDIA LIMITED Regd. Office: 4th Floor Tower - 1, NBCC Plaza, Pushp Vihar Sector 5, Saket, New Delhi - 110017 Ph.: +91-11-29561180, 47472200

Email: ho@tfciltd.com, website: www.tfciltd.com, CIN:L65910DL1989PLC034812

EXTRACT OF THE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2023

Sr.	Particulars	(	Quarter Ended	6	Half Yea	ar Ended	Year Ended
No.	Particulars	30.09.2023	30.06.2023	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2022	31.03.2023
		(Reviewed)	(Reviewed)	(Reviewed)	(Reviewed)	(Reviewed)	(Audited)
1	Total Income from Operations	5,780.03	5,916.18	5,763.88	11,696.21	12,041.46	23,145.21
2	Net Profit for the period (before tax, exceptional items and/or extraordinary items)	2,375.12	2,936.91	2,169.66	5,312.03	5,317.81	10,936.97
3	Net Profit for the period before tax (after exceptional items and/or extraordinary items)	2,375.12	2,936.91	2,169.66	5,312.03	5,317.81	10,936.97
4	Net Profit for the period after tax (after exceptional items and/or extraordinary items)	1,875.12	2,436.91	1,969.66	4,312.03	4,467.81	8,794.95
5	Total Comprehensive Income for the period	2,242.80	2,435.70	2,286.22	4,678.50	4,784.37	9,169.09
6	Equity Share Capital (Face Value of ₹10/- each)	9,037.24	9,037.24	9,037.24	9,037.24	9,037.24	9,037.24
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	85,880.57	95,092.31	88,322.18	85,880.57	88,322.18	92,673.25
8	Securities Premium Account	11,497.75	11,514.58	11,564.87	11,497.75	11,564.87	11,531.22
9	Net worth	94,917.81	1,04,129.55	97,359.42	94,917.81	97,359.42	1,01,710.49
10	Outstanding Redeemable Preference Shares						
11	Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt	99,883.12	96952.63	92,023.56	99,883.12	92,023.56	99,883.12
12	Debt Equity Ratio	1.11:1	0.94:1	0.96:1	1.11:1	0.96:1	0.98:1
13	Earning Per Share (Face value of ₹10/- each) - not annualised		1000				
	- Basic (₹)	2.07	2.70	2.18	4.77	4.94	9.73
	- Diluted (₹)	2.07	2.70	2.18	4.77	4.94	9.73
14	Capital Redemption Reserve	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
15	Debenture Redemption Reserve	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
16	Debt Service Coverage Ratio	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
17	Interest Service Coverage Ratio	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Notes:

1. The above financial results of the Company were reviewed by the Audit Committee and approved and taken on record by the Board of Directors at the meeting held on November 10, 2023. These results have been Reviewed by the Statutory Auditors of the Company, who have issued an unmodified report thereon.

2. The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the Financial Results are available on the Stock Exchanges websites www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's Website www.tfciltd.com.

3. For the other line items referred in regulation 52(4) of the Listing Regulations, pertinent disclosures have been made to the National Stock Exchange and Bombay Stock Exchange and can be accessed on the Stock Exchanges websites www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's Website www.tfciltd.com.

for Tourism Finance Corporation of India Ltd.

Place: New Delhi Date: November 10, 2023

(Anoop Bali) Whole Time Director & CFO

O MA

CAL

TE

Dated

No. ML 376 : invites GST r Purch license Terms submit either the www. Assis

tta ci Exprei held conter damag transa associ advert or Put

or Put recom make before enterin with a acting any m

EXT

SL

No.

1 2 3

4

5

Note

2

3 1

> Kolk 10th

## Nitta Gelatin India Limited REGD. OFFICE : 56/715, SBT AVENUE, PANAMPILLY NAGAR, KOCHI , KERALA - 682036 (Corporate Identification number : L24299KL1975PLC002691) Email: investorcell@nitta-gelatin.co.in Tel: +91- 484-2317805 / Fax : +91-484-2310568

SI No.	Particulars			STAND	ALONE					CONSO	LIDATED		
-			Quarter Ende	ed	Half Yea	r Ended	Year Ended	(	Juarter Ended	1	Half Ve	ar Ended	Year Ended
		30-Sep-23	30-Jun-23	30-Sep-22	30-Sep-23	30-Sep-22	31-Mar-23	30-Sep-23	30-Jun-23	30-Sep-22	30-Sep-23	30-Sep-22	31-Mar-23
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	13,238.51	11,865.06	12,940.47	25,103.57	24,276.35	49,206.41	14,254.25	13,128.41	14,594.68	27,382.66	28,048.70	56,618.44
2	Net Profit for the period ( before Tax, Exceptional and Extra ordinary items )	3,184.45	3,279.59	2,048.81	6,464.04	3,239.19	7,808.34	3,005.79	3,775.00	2,170.27	6,780.79	3,963.54	9,609.89
3	Net Profit for the period before Tax ( after Exceptional and Extra ordinary items )	3,184.45	3,279.59	2,048.81	6,464.04	3,239.19	7,808.34	3,005.79	3,775.00	2,170.27	6,780.79	3,963.54	9,906.76
4	Net Profit for the period after Tax ( after Exceptional and Extra ordinary items)	2,509.21	2,448.56	1,573.67	4,957.77	2,418.28	5,876.45	2,201.50	2,815.01	1,536.76	5,016.51	2,832.98	7,389.99
5	Total Comprehensive Income for the period/ year [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	2,444.12	2,521.54	1,753.06	4,965.66	2,345.65	5,885.80	2,121.70	2,900.99	1,748.16	5,022.69	2,756.17	7,394.42
6	Equity Share Capital	907.92	907.92	907.92	907.92	907.92	907.92	907.92	907.92	907.92	907.92	907.92	907.92
7	Reserves (excluding Revaluation Reserves) as shown in the audited Balance Sheet			•	1.0		23,086.40		*		1		25,852.74
8	Earnings Per Share (Face Value ₹ 10/-each) (not annualised for quarter) a) Basic (₹) b) Diluted: (₹)	27.64 27.64	26.97 26.97	17.33 17.33	54.61 54.61	26.64 26.64	64,72 64,72	23.45 23.45	30.32 30.32	16.12 16.12	53.77 53.77	29.60 29.60	77.44 77.44

These financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules thereunder and in
terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure requirements) Regulations, 2015, as amended.
 The Company is engaged in the manufacture and sale of products which form part of a single product group which represents one operating segment. As the Chief Operating Decision Maker (CODM) reviews

								y League India
		Date: 18th Nov, 2023 Place: Noida					Horaging Dir	Dovinder Kurk ector (DIN: 804
	••••	नई दिल्ल	ती		••	•		
					- 1			1
/			স	नसत	I I	11 नव	iबर, 2023	
/								
144A	ूरिज्म प	ठाइनेंस क था तल, टॉवर-१ एनबीसी	जर्पो	2210	त ओ	फ इ	डिया	r æ
ASEA.		फोनः +91 tfciltd.com, वेबसाइटः v						
30 सित	तंबर, 2023 के	समाप्त तिमाही प	रवं छमा	ही के f	लेए वित्त	ीय परिष	गामों का	सारांश (र लाख
क्र.	0			समाप्त तिमाः	ព្	समाप	त छमाही	समाप्त व
सं.	विवरण				3 30.09.202	2 30.09.202	30.09.2022	31.03.20
1 प्रचाल	नों से कुल आय		(समीक्षित) 5,780.03	(समीक्षित) 5,916.18	(समीक्षित) 5,763.88	(समीक्षित) 11,696.21	(समीक्षित) 12,041.46	(अंकेसि 23,145.1
2 अवधि	के लियें निवल लाभ (क	र, अपवादात्मक मदों और/या	2,375.12	2,936.91	2,169.66			10,936.9
100.0000	ारण मदों से पूर्व) के लिये कर पर्व निवल	लाम (अपवादात्मक मदों और /	2,375.12	2,936.91	2,169.66	5,312.03	5,317.81	10,936.
या अन	साधारण मदों के बाद)			2,930.9			5,517.61	10,930.
	के लिये कर पश्चात निवल साधारण मदों के बाद)	त लाभ (अपवादात्मक मदौ और /	1,875.12	2,436.91	1,969.66	4,312.03	4,467.81	8,794.95
5 अवधि	के लिये कुल समग्र आय		2,242.80	2,435.70		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4,784.37	9,169.0
	ी शेयर पूंजी (अंकित मूल		9,037.24	9,037.24			A. L. Margarette 1993 (1993)	9,037.2
	(पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को ते प्रीमियम खाता	छ।ड़कर)	85,880.57 11,497.75	95,092.31 11,514.58	88,322.18 11,564.87		2 (0.2 Set 2) (2 Set 2)	92,673.
9 निवल			94,917.81	1,04,129.55			97,359.42	1,01,710.4
	। प्रतिदेय वरीयता शेयर							
	। ऋण पूंजी/बकाया ऋष इविचटी अनुपात	T	99,883.12	96952.63 0.94:1	92,023.56		92,023.56 0.96:1	99,883.1
		पेक ₹10/-) - वार्षिकीकृत नहीं	1.11.1	0.94.1	0.90.1	1.11.1	0.90.1	0.90
–बेसि			2.07	2.70		0.002		9.7
	ल्यूटिड(₹) ल रिडम्पशन रिजर्व		2.07	2.70				9.7
10 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	ल रिडम्पशन रिजर्व र रिडम्पशन रिजर्व		N.A.	N.A.	N.A.		N.A.	N.
16 ऋण	सेवा कवरेज अनुपात		N.A.	N.A.	N.A.		N.A.	N.
17 व्याज	सेवा कवरेज अनुपात		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.
<ol> <li>कंपनी के ए रिकार्ड में वि</li> </ol>		वं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनि	यम, 2015 के वि	वेनियम 33 ए	वं विनियम 52 व	के अंतर्गत स्टॉव	ह एक्सचेंजों में व	ाखिल किये
रिकार्ड में वि 2. उपरोक्त से वित्तीय परि की वेबसाइ 3. लिस्टिंग वि	णामों के विस्तृत प्रारूप का ट www.tfciltd.com पर उप नियमों के विनियम 52(4)	सारांश है। वित्तीय परिणामों का पू लब्ध है। में संदर्भित अन्य लाइन आइटम के w.nseindia.com और www.bseind	लिए, नेशनल	स्टॉक एक्सचे	ਝਟ www.tfciltd	स्टॉक एक्सचेंज i.com पर देखे र	में प्रासंगिक खुत	नासे किए ग
रिकार्ड में वि 2. उपरोक्त से वित्तीय परि की वेबसाइ 3. लिस्टिंग वि और स्टॉक स्थान : नई 1	णामों के विस्तृत प्रारूप का ट www.tfciltd.com पर उप नियमों के विनियम 52(4) एक्सचेंज की वेबसाइट ww दिल्ली	लब्ध है। में संदर्भित अन्य लाइन आइटम के	लिए, नेशनल	स्टॉक एक्सचे	ਝਟ www.tfciltd	स्टॉक एक्सचेंज l.com पर देखे र दूरिज़्म फाइनें	में प्रासंगिक खुल जा सकते हैं। स कार्पोरेशन : (अनूप बाली)	नासे किए ग ऑफ इंडिय
रिकार्ड में ति 2. उपरोक्त से वित्तीय परि की वेबसाइ 3. लिस्टिंग वि और स्टॉक	णामों के विस्तृत प्रारूप का ट www.tfciltd.com पर उप नियमों के विनियम 52(4) एक्सचेंज की वेबसाइट ww दिल्ली	लब्ध है। में संदर्भित अन्य लाइन आइटम के	लिए, नेशनल	स्टॉक एक्सचे	ਝਟ www.tfciltd	स्टॉक एक्सचेंज l.com पर देखे र दूरिज़्म फाइनें	में प्रासंगिक खुल जा सकते हैं। स कार्पोरेशन व	नासे किए ग ऑफ इंडिय
रिकार्ड में वि 2. उपरोक्त से वित्तीय परि की वेबसाइ 3. लिस्टिंग वि और स्टॉक स्थान : नई 1	णामों के विस्तृत प्रारूप का ट www.tfaltd.com पर उप नियमों के विनियम 52(4) एक्सचेंज की वेबसाइट ww वि <b>ल्ली</b> नवंबर, 2023	नक्य है। में संदर्भित अन्य लाइन आइटम वे w.nseindia.com और www.bseind	े लिए, नेशनल Jia.com और कं	स्टॉक एक्सचे पनी की वेबस	इट www.tfciltd कृते	स्टॉक एक्सचेंज l.com पर देखे र दूरिज्म फाइनें पूर्णकालिव	में प्रासंगिक खु, जा सकते हैं। स कार्पोरेशन द (अनूप बाली) 5 निदेशक एवं	नासे किए ग ऑफ इंडिय सीएफओ
रिकार्ड में वि 2. उपरोक्त से वित्तीय परि की वेबसाइ 3. लिस्टिंग वि और स्टॉक स्थान : नई 1	णामों के विस्तृत प्रारूप का ट www.tfaltd.com पर उप नियमों के विनियम 52(4) एक्सचेंज की वेबसाइट ww वि <b>ल्ली</b> नवंबर, 2023	नक्य है। में संदर्भित अन्य लाइन आइटम के w.nseindia.com और www.bseind RYANA LEATH CIN: L	िलिए, नेशनल lia.com और कं IER CH 74999HR1988	स्टोंक एक्सचे पनी की वेबसा <b>HEMI(</b> 5PLC019905	इट www.tfciltd कृते CALS I	स्टॉक एक्सचेंज I.com पर देखे र दूरिज्म फाइनें पूर्णकालिब LIMITE	में प्रासंगिक खु, जा सकते हैं। स कार्पोरेशन द (अनूप बाली) 5 निदेशक एवं	नासे किए ग ऑफ इंडिय सीएफओ
रिकार्ड में वि 2. उपरोक्त से वित्तीय परि की वेबसाइ 3. लिस्टिंग वि और स्टॉक स्थान : नई 1	णामों के विस्तृत प्रारूप का ट www.tfaltd.com पर उप नियमों के विनियम 52(4) एक्सचेंज की वेबसाइट ww दिल्ली नवंबर, 2023	नक्य है। में संदर्भित अन्य लाइन आइटम के w.nseindia.com और www.bseind	िलिए, नेशनल iia.com और कं IER CH 74999HR1988 Industrial Esta	स्टोंक एक्सचे पनी की वेबसा <b>1EMI(</b> 5PLC019905 ste, Hansi Rc	इट www.tfciltd कृते CALS I ad, Jind - 126	स्टॉक एक्सचेंज l.com पर देखे द दूरिज्म फाइनें पूर्णकालिब LIMITE 102 (Hr.)	में प्रासंगिक खुर जा सकते हैं। स कार्पोरेशन र (अनूप बाली) 5 निदेशक एवं	नासे किए ग ऑफ इंडिय सीएफओ
रिकार्ड में वि 2. उपरोक्त से वित्तीय परि की वेबसाइ 3. लिस्टिंग वि और स्टॉक स्थान : नई 1	णामों के विस्तृत प्रारूप का ट www.tfaltd.com पर उप नियमों के विनियम 52(4) एक्सचेंज की वेबसाइट ww दिल्ली नवंबर, 2023 सि Tel: Tel: +91-016 STATEMEN	नक्य है। में संदर्भित अन्य लाइन आइटम के w.nseindia.com और www.bseind RYANA LEATH CIN: L Regd. Office : 72-77, HSIDC 81-226645, Fax:+91-01681-222 T OF STANDALONE	ि लिए, नेशनल lia.com और के IER CH 74999HR198 74999HR198 ta 101 E-mail: In UNAUDI	स्टॉक एक्सचे पनी की वेबस SPLC019905 fo@leathercl fo@leathercl TED FIN	इट www.tfciltd कृते CALS I ad, Jind - 126 aem.com; Wet ANCIAL	स्टॉक एक्सबेंज 1.com पर देखे र दूरिज्म फाइनें पूर्णकालिब 102 (Hr.) 102 (Hr.) 15ite: www.lea RESULTS	में प्रासंगिक खु जा सकते हैं। स कार्पोरेशन : (अनूप बाली) 5 निदेशक एवं D HARY therchem.com FOR THE	जासे किए ग ऑफ इंडिय सीएफओ
रिकार्ड में वि 2. उपरोक्त से वित्तीय परि की वेबसाइ 3. लिस्टिंग वि और स्टॉक स्थान : नई 1	णामों के विस्तृत प्रारूप का ट www.tfaltd.com पर उप नियमों के विनियम 52(4) एक्सचेंज की वेबसाइट ww दिल्ली नवंबर, 2023 सि Tel: Tel: +91-016 STATEMEN	नक्य है। में संदर्भित अन्य लाइन आइटम के w.nseindia.com और www.bseind Regd. Office : 72-77, HSIDC 31-226645, Fax:+91-01681-225	ि लिए, नेशनल lia.com और के IER CH 74999HR198 74999HR198 ta 101 E-mail: In UNAUDI	स्टोंक एक्सचें पनी की वेबस FLC019905 ite, Hansi Ro fo@leatherch TED FIN DED ON	इट www.tfciltd कृते CALS I ad, Jind - 126 nem.com; Wet ANCIAL I 30TH SE	स्टॉक एक्सबेंज l.com पर देखे द दूरिज्म फाइनें पूर्णकालिब U2 (Hr.) ssite: www.lea RESULTS EPT. 2023 (Rs. in La	में प्रासंगिक खु जा सकते हैं। स कार्पोरेशन : (अनूप बाली) 5 निदेशक एवं D HARY therchem.com FOR THE	नासे किए ग ऑफ इंडिय सीएफओ
रिकार्ड में वि 2. उपरोक्त से वित्तीय परि की वेबसाइ 3. लिस्टिंग वि और स्टॉक स्थान : नई 1	णामों के विस्तृत प्रारूप का ट www.tfaltd.com पर उप नियमों के विनियम 52(4) एक्सचेंज की वेबसाइट ww दिल्ली नवंबर, 2023 सि Tel: Tel: +91-016 STATEMEN QU	नक्य है। में संदर्भित अन्य लाइन आइटम के w.nseindia.com और www.bseind Regd. Office : 72-77, HSIDC B1-226645, Fax:+91-01681-225 T OF STANDALONE JARTER AND HALF	ि लिए, नेशनल lia.com और के // / / / / / / / / / / / / / / / / /	स्टोंक एक्सनें प्रनी की येवसा SPLC019905 te, Hansi Rc fo@leathrct DED FIN DED ON ST warter Endeg	इट www.tfciltd कृते CALS I ad, Jind - 126 hem.com; Wet ANCIAL 30TH SE	स्टॉक एक्सबेंज Loom पर देखे र यूरिज्म फाइनें पूर्णकालिब UD2 (Hr.) ssite: www.lea RESULTS EPT. 2023 (B. In La E RESULTS Half Year I	में प्रासंगिक खु जा सकते हैं। स कार्पोरेशन : (अनूप बाली) 5 निदेशक एवं D HARY therchem.com FOR THE 5 cs except per shar Ended Yea	नासे किए ग ऑफ इंडिय सीएफओ क्रि
रिकार्ड में वि 2. उपरोक्त से वित्तीय परि की वेबसाइ 3. लिस्टिंग वि और स्टॉक स्थान : नई 1	णामों के विस्तृत प्रारूप का ट www.tfaltd.com पर उप नियमों के विनियम 52(4) एक्सचेंज की वेबसाइट ww दिल्ली नवंबर, 2023 सि Tel: Tel: +91-016 STATEMEN QU	नक्य है। में संदर्भित अन्य लाइन आइटम के w.nseindia.com और www.bseind RYANA LEATH CIN: L Regd. Office : 72-77, HSIDC 81-226645, Fax:+91-01681-222 T OF STANDALONE	े लिए, नेशनल lia.com और के IER CH 74999HR198 74999HR188 i01 E-mail: In UNAUDI YEAR EN	स्टोंक एक्स मनी की येवस <b>TEMUIO</b> SPLC019905 ite, Hansi Ro Go@eathrect TED FIN DED ON	इट www.tfciltd कृते CALS I ad, Jind - 126 hem.com; Wet ANCIAL 30TH SE	स्टॉक एक्सचेंज Lcom पर देखे र दूरिज्म फाइनें पूर्णकालिब UD2 (Hr.) osite: www.lea RESULTS EPT. 2023 (Rs. in La E RESULTS Half Year I 30.09.2023 3	में प्रासंगिक खु जा सकते हैं । स कार्पोरेशन : (अनूप बाली) 5 निदेशक एवं D HARY therchem.com FOR THE 5 cs except per shar Ended Yea 0.09.2022 31.1	नासे किए ग ऑफ इंडिय सीएफओ केNA <u>e amount</u> )
रिकार्ड में वि 2. उपरोक्त से वित्तीय परि की वेबसाइ 3. लिस्टिंग वि और स्टॉक स्थान : नई 1	णामौ के विस्तृत प्रारूप का ट www.tfaltd.com पर उप नियमों के विनियम 52(4) एक्सचेंज की वेबसाइट ww दिल्ली नवंबर, 2023 HA Tel: Tel: +91-016 STATEMEN QU PART Revenue From Operati	नक्य है। में संदर्भित अन्य लाइन आइटम के w.nseindia.com और www.bseind City Regd. Office : 72-77, HSIDC B1-226645, Fax: +91-01681-228 T OF STANDALONE JARTER AND HALF	ि लिए, नेशनल lia.com और के IER CH 74999HR1988 Industrial Esta SIOI E-mail: Int UNAUDI YEAR EN 0.09.2023 Unaudited 1,140.71	स्टोंक एक्स मनी की येवस <b>HEMII</b> SPLC019905 te, Hansi Re Go@eathrect TED FIN DED ON ST uarter Endec 30.06.2023 Unaudited 1,101.65	इट www.tfciltd कृते CALS I ad, Jind - 126 hem.com; Wet ANCIAL 300TH SE ANDALON Unaudited 986.97	دَرَّتُه رَحَمَّتُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ	में प्रासंगिक खु ना सकते हैं। स कार्पोरेशन : (अनुप बाली) 5 निदेशक एवं ED HARY therchem.com FOR THE 5 cs except per share 5 cs excep	नासे किए ग ऑफ इंडिय सीएफओ (ANA) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant) (Constant)
रिकार्ड में वि 2. उपरोक्त से वित्तीय परि की वेबसाइ 3. लिस्टिंग वि और स्टॉक स्थान : नई 1	णामों के विस्तृत प्रारूप का ट www.tfaltd.com पर उप नियमों के विनियम 52(4) एक्सचेंज की वेबसाइट ww दिल्ली नवंबर, 2023 Tel: Tel: +91-016 STATEMEN QI	नक्य है। में संदर्भित अन्य लाइन आइटम के w.nseindia.com और www.bseind Regd. Office : 72-77, HSIDC 31-226645, Fax:+91-01681-226 JARTER AND HALF	ि लिए, नेशनल lia.com और के IER CH 74999HR1988 Industrial Esta 5101 E-mail: in UNAUDI YEAR EN 30.09.2023 Unaudited 1,140.71 30.70	स्टोंक एक्सचें पनी की वेबसा SPLC019905 ite, Hansi Ro fo@leathercl TED FIN DED ON S1 uarter Endec 30.06.2023 Unaudited	इट www.tfciltd कृते CALS I ad, Jind - 126 nem.com; Wet ANCIAL 30TH SE ANDALON J 30.09.2022 Unaudited	स्टॉक एक्सबेंज Lcom पर देखे र यू रिज़्म फाइनें पूर्णकालिब UD2 (Hr.) bosite: www.lea RESULTS EPT. 2023 (Rs. In La E RESULTS E RESULTS E RESULTS E RESULTS I Junaudited 1 2,242.36 55.00	में प्रासंगिक खु जा सकते हैं । स कार्पोरेशन : (अनूप बाली) 5 निदेशक एवं D HARY therchem.com FOR THE 5 cs except per shar 5 cs except pe	नासे किए ग ऑफ इंडिय सीएफओ (ANA e amount) r Ended 13.2023 udited
रिकार्ड में वि 2. उपरोक्त से वित्तीय परि की वेबसाइ 3. लिस्टिंग वि और स्टॉक स्थान : नई 1	णामों के विस्तृत प्रारूप का ट www.tfaltd.com पर उप नियमों के विनियम 52(4) एक्सचेंज की वेबसाइट ww दिल्ली नर्वबर, 2023	नक्स है। में संदर्भित अन्य लाइन आइटम के w.nseindia.com और www.bseind RYANA LEATH Regd. Office : 72-77, HSIDC B1-226645, Fax:+91-01681-225 T OF STANDALONE JARTER AND HALF	ि लिए, नेशनल lia.com और के IER CI 74999HR1984 Industrial Esta Ioti E-mail: Ini UNAUDI YEAR EN 0.09.2023 Unaudited 1,140.71 30.70 1,171.41	स्टोंक एक्सचें पनी की येवसा <b>HEMII</b> <b>FLC019905</b> tte, Hansi Rc Go@eathrect <b>TED FIN</b> <b>DED ON</b> <b>S1</b> <b>uarter Endec</b> <b>30.06.2023</b> <b>Unaudited</b> <b>1.101.65</b> 24.30 <b>1.125.95</b>	इट www.tfciltd कृते CALS I ad, Jind - 126 hem.com; Web ANCIAL 30TH SE ANDALON 1 30.09.2022 Unaudited 986.97 31.51 1,018.48	دَرَّه رَعَبَّا عَنَى دُوْرَهُ رَعْبَا مَهُ عَنَى حَرَا مَعْنَا مَهُ عَنْ حَرَا مَعْنَا مَعْنَا مَعْنَا مَعْنَا مَعْنَا مَعْنَا مُعْنا مُعْعا مُعْنا مُعْعا مُعْنا م	में प्रासंगिक खु ना सकते हैं। स कार्पोरेशन : (अनुप बाली) 5 निदेशक एवं ED HARY therchem.com FOR THE 5 6 except per share 6 0.09.2022 31.1 Juaudited A 2,150.91 4, 61.80 2,212.71 4,	नासे किए ग ऑफ इंडिय सीएफओ के किएफओ के किएफओ के किएफओ के किएफओ के किएफ के किएफ के किए के कि के किए के कि के कि को कि के कि कि के कि के कि के के कि के के कि के के कि के के के के के के के के के के के के के
रिकार्ड में ति 2. उपरोक्त से वितीय परि की वेबसाइ 3. लिस्टिंग वि और स्टॉक स्थान : नई 1 दिनांक : 10	णामों के विस्तृत प्रारूप का ट www.tfaltd.com पर उप नियमों के विनियम 52(4) एक्सचेंज की वेबसाइट ww दिल्ली नवंबर, 2023 Tel: Tel: +91-016 STATEMEN QU PART Revenue From Operati Other Income	लब्द है। में संदर्भित अन्य लाइन आइटम वे w.nseindia.com और www.bseind RYANA LEATH CiN: L Regd. Office : 72-77, HSiIDC 31-226645, Fax:+91-01681-22 T OF STANDALONE JARTER AND HALF ICULARS ons Total Income (I+II) nsumed	ि लिए, नेशनल lia.com और के IER CH 74999HR1988 Industrial Esta 5101 E-mail: in UNAUDI YEAR EN 30.09.2023 Unaudited 1,140.71 30.70	स्टोंक एक्सचे पनी की येवस FEC019905 te, Hansi Re fo@leathercd fo@leathercd TED FIN ST uarter Endec 30.06.2023 Unaudited 1.101.65 24.30	इट www.tfciltd कृते CALS I ad, Jind - 126 hem.com; Web ANCIAL 30.09.2022 Unaudited 986.97 31.51	دَرَّه رَعَبَّا عَنَى دُوْرَهُ رَعْبَا مَهُ عَنَى حَرَا مَعْنَا مَهُ عَنْ حَرَا مَعْنَا مَعْنَا مَعْنَا مَعْنَا مَعْنَا مَعْنَا مُعْنا مُعْعا مُعْنا مُعْعا مُعْنا م	में प्रासंगिक खु ना सकते हैं। स कार्पोरेशन : (अनुप बाली) 5 निदेशक एवं ED HARY therchem.com FOR THE 5 5 except per share 0.09.2022 31.1 Dinaudited A 2,150.91 4, 61.80 2,212.71 4,	नासे किए ग ऑफ इंडिय सीएफओ केर्रे के केर्रे <u>केर्रे</u> <u>e amounti</u> <u>r Ended</u> 13.2023 <u>udited</u> 247.88 117.31
रिकार्ड में ति 2. उपरोक्त से वितीय परि की वेबसाइ 3. लिस्टिंग वि और स्टॉक स्थान : नई 1 दिनांक : 10	णामों के विस्तृत प्रारूप का ट www.tfaltd.com पर उप नियमों के विनियम 52(4) एक्सचेंज की वेबसाइट ww विल्ली नवंबर, 2023 HA Tel: Tel: +91-016 STATEMEN QU PART Revenue From Operati Other Income i Expenses (a) Cost of materials oc (b) Purchases of Stock (c) Changes in Invento	नक्य है । में संदर्भित अन्य लाइन आइटम के w.nseindia.com और www.bseind RYANA LEATH ICULARS Ins Total Income (I+II) Insurmed in-trade iss of finished goods,	ि लिए, नेशनल lia.com और के // / / / / / / / / / / / / / / / / /	स्टोंक एक्सचें पनी की येवसा 5PLC019905 te, Hansi Rc fo@leathrcth DED f0N DED ON ST uarter Endec 30.06.2023 Unaudited 1,101.65 24.30 1,125.95 826.67	इट www.tfciltd कृते CALS I ad, Jind - 126 hem.com; Web ANCIAL 301H SE 30.09.2022 Unaudited 986.97 31.51 1,018.48 692.95	المحتوف         المحتوف           المحتوف	में प्रासंगिक खु जा सकते हैं । स कार्योरेशन : (अनूप बाली) 5 निदेशक एवं D HARY therchem.com FOR THE 5 cs except per shar 5 cs except pe	नासे किए ग ऑफ इंडिय सीएफओ (NAA) r Ended 103.2023 udited 117.31 365.19 085.33
रिकार्ड में ति 2. उपरोक्त से वितीय परि की वेबसाइ 3. लिस्टिंग वि और स्टॉक स्थान : नई 1 दिनांक : 10	णामों के विस्तृत प्रारूप का ट www.tfaltd.com पर उप नियमों के विनियम 52(4) एक्सचेंज की वेबसाइट ww दिल्ली नवंबर. 2023	लब्द है । में संदर्भित अन्य लाइन आइटम वे w.nseindia.com और www.bseind Regd. Office : 72-77, HSIDC 31-226645, Fax:+91-01681-22f JARTER AND HALF ICULARS IncularS Ins Total Income (I+II) nsumed in-trade ies of finished goods, i stock-in-trade	ि लिए, नेशनल lia.com और के lia.com और के Industrial Est Stoll E-mail: in UNAUDI YEAR EN UNAUDI YEAR EN 0.00 1,171.41 699.59 0.00 65.00 108.95	स्टोंक एक्सचें पनी की वेबस <b>EEMIIC</b> SPLC019905 tte, Hansi Rc fo@leathercl <b>TED FIN</b> <b>DED ON</b> <b>ST</b> <b>uarter Endeo</b> <b>30.06.2023</b> <b>Unaudited</b> 1,101.65 24.30 <b>1,125.95</b> 826.67 0.00 -23.62 114.47	इट www.tfciltd कृते CALS I ad, Jind - 126 nem.com; Wet ANCIAL 30.09.2022 Unaudited 986.97 31.51 1,018.48 692.95 0.00 22.17 104.09	स्टॉक एक्सचेंज Lcom पर देखे र दूरिज़्म फाइनें पूर्णकालिब U2 (Hr.) osite: www.lea RESULTS FT. 2023 (Rs. in La E RESULTS Half Year 30.09.2023 3 Unaudited 1,526.26 0.00 41.38 223.42	में प्रासंगिक खु जा सकते हैं । स कार्पोरेशन : (अनुष बाली) 5 निदेशक एवं D HARY therchem.com FOR THE 5 cs except per shar cs except per shar cs except per shar cs except per shar cs except per shar 1,560,222 31, Jnaudited A 2,150,91 4, 61,80 2,212,71 4, 1,560,22 3, 0,00 29,37 206,41	नासे किए ग ऑफ इंडिय सीएफओ (रेफि <u>ह amount)</u> <u>r Ended</u> 03.2023 udited 247.88 247.88 117.31 365.19 085.33 0.00 -22.64 379.81
रिकार्ड में ति 2. उपरोक्त से वितीय परि की वेबसाइ 3. लिस्टिंग वि और स्टॉक स्थान : नई 1 दिनांक : 10	णामों के विस्तृत प्रारूप का ट www.tfaltd.com पर उप नियमों के विनियम 52(4) एक्सचेंज की वेबसाइट ww विल्ली नवंबर, 2023 HA Tel: Tel: +91-016 STATEMEN QU PART Revenue From Operati Other Income (b) Purchases of Stock (b) Purchases of Stock (c) Changes in Invento (d) Employee benefits (e) Finance Cost	नक्य है । में संदर्भित अन्य लाइन आइटम के w.nseindia.com और www.bseind RYANA LEATH IL Regd. Office : 72-77, HSIDC 31-226645, Fax:+91-01681-222 T OF STANDALONE JARTER AND HALF ICULARS ons Total Income (I+II) insumed 	ि लिए, नेशनल lia.com और के IER CI 74999HR1984 Industrial Esta Ioti E-mail: Ini UNAUDI YEAR EN 0 30.09.2023 Unaudited 1,140.71 30.70 1,171.41 699.59 0.00 65.00 108.95 0.54	स्टोंक एक्समें पनी की येवस <b>EEMIIC</b> <b>FLC019905</b> tte, Hansi Rc Go@leathrect <b>TED FIN</b> <b>DED ON</b> <b>S1</b> <b>uarter Endec</b> <b>30.06.2023</b> <b>Unaudited</b> <b>1.101.65</b> 24.30 <b>1.125.95</b> 826.67 0.00 -22.62 114.47 0.62	इट www.tfciltd कृते CALS I ad, Jind - 126 nem.com; Wet ANCIAL 301H SE ANDALON 30.09.2022 Unaudited 986.97 31.51 1,018.48 692.95 0.00 22.17 104.09 0.36	دَرَّتُه رَحَمَّتُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ	में प्रासंगिक खु जा सकते हैं। स कार्पोरेशन : (अनुप बाली) 5 निदेशक एवं ED HARY therchem.com FOR THE 5 60.09.2022 31.0 1.560.22 3.0 0.00 2,212.71 4. 61.80 2,212.71 4. 1.560.22 3. 0.00 29.37 206.41 2.75	सासे किए ग ऑफ इंडिय सीएफओ के कि के के के के 17.31 365.19 085.33 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0
रिकार्ड में ति 2. उपरोक्त से वितीय परि की वेबसाइ 3. लिस्टिंग वि और स्टॉक स्थान : नई 1 दिनांक : 10	णामों के विस्तृत प्रारूप का ट www.tfaltd.com पर उप नियमों के विनियम 52(4) एक्सचेंज की वेबसाइट ww दिल्ली नवंबर. 2023	लब्स है । में संदर्भित अन्य लाइन आइटम वे w.nseindia.com और www.bseind Regd. Office : 72-77, HSIDC B1-226645, Fax:+91-01681-225 T OF STANDALONE JARTER AND HALF ICULARS ons Total Income (I+II) insumed -in-trade ies of finished goods, 5 stock-in-trade expense	ि लिए, नेशनल lia.com और के lia.com और के Industrial Esta Stot E-mail: in UNAUDI YEAR EN 0.09.2023 Unaudited 1,140.71 30.70 1,171.41 689.59 0.00 65.00 108.95 0.54 18.00 186.50	स्टॉक एक्सचे पनी को येवस <b>EEMIIC</b> 5PLC019905 te, Hansi Re fo@leathercd <b>TED FIN</b> <b>DED ON</b> <b>ST</b> uarter Endee 30.06.2023 Unaudited 1.101.65 24.30 1,125.95 826.67 0.00 -23.62 114.47 0.62 19.00 129.22	इट www.tfciltd कृते CALS I ad, Jind - 126 hem.com; Wet ANCIAL 30.09.2022 Unaudited 986.97 31.51 1,018.48 692.95 0.00 22.17 104.09 0.36 18.00 125.95	دَرَّتُه رَحَبَّتُ بَعَنَّةُ بَعَنَّةً بَعَنَّةً بِعَنْهُ بَعَنَّةً بَعَنَّةً بَعَنَّةً بِعَنْهُ بَعْنَا بَعَ يوافقا مع المحافة ا محافة المحافة محافة	में प्रासंगिक खु जा सकते हैं । स कार्पोरेशन न (अनुष बाली) 5 निदेशक एवं D HARY therchem.com FOR THE 5 cs except per shar Ended Yea 0.09.2022 31.1 Jnaudited A 2,150.91 4, 61.80 2,212.71 4, 1,560.22 35.0 2,937 206.41 2,75 36.00 269.50	नासे किए ग ऑफ इंडिय सीएफओ के के क र Ended 03.2023 udited 247.88 247.88 117.31 365.19 085.33 0.00 -22.64 379.81 4.86 77.68 566.78
रिकार्ड में ति 2. उपरोक्त से वितीय परि की वेबसाइ 3. लिस्टिंग वि और स्टॉक स्थान : नई 1 दिनांक : 10	णामों के विस्तृत प्रारूप का ट www.tfaltd.com पर उप नियमों के विनियम 52(4) एक्सचेंज की वेबसाइट ww विल्ली नवंबर. 2023 HA Tel: Tel: +91-016 STATEMEN QU PART Revenue From Operati Other Income (a) Cost of materials oc (b) Purchases of Stock (c) Changes in invento work in progress an (d) Employee benefits (e) Finance Cost (f) Depreciation and An (g) Other expenses	नक्य है । में संदर्भित अन्य लाइन आइटम के w.nseindia.com और www.bseind RYANA LEATH IL Regd. Office : 72-77, HSIDC 31-226645, Fax:+91-01681-222 T OF STANDALONE JARTER AND HALF ICULARS ons Total Income (I+II) insumed 	ि लिए, नेशनल           b लिए, नेशनल           lia.com और के           74999HR1983           Industrial Esta           Stot E-mail: in           UNAUDI           YEAR EN           30.09.2023           Unaudited           1,140.71           30.70           1,171.41           699.59           0.00           65.00           108.95           0.54           18.00	स्टोंक एक्सचें पनी की येवस 5PLC019905 te, Hansi Rc fo@leathrctl DED ON 30.06.2023 Unaudited 1.101.65 24.30 1.125.95 826.67 0.00 -23.62 114.47 0.62 19.00	इट www.tfciltd कृते CALS I ad, Jind - 126 hem.com; Web 30.09.2022 Unaudited 986.97 31.51 1,018.48 692.95 0.00 22.17 104.09 0.36 18.00	دَرَّتُه رَحَبَّتُ بَعَنَّةُ بَعَنَّةً بَعَنَّةً بِعَنْهُ بَعَنَّةً بَعَنَّةً بَعَنَّةً بِعَنْهُ بَعْنَا بَعَ يوافع المالية ماليان مالية المالية المالية المالييمييييييييييييييييييييييييييييييي	में प्रासंगिक खु जा सकते हैं । स कार्पोरेशन न (अनुष बाली) 5 निदेशक एवं D HARY therchem.com FOR THE 5 cs except per shar Ended Yea 0.09.2022 31.1 Jnaudited A 2,150.91 4, 61.80 2,212.71 4, 1,560.22 35.0 2,937 206.41 2,75 36.00 269.50	e amount) r Ended 17.31 985.33 0.00 -22.64 379.81 4.86 77.68
रिकार्ड में ति 2. उपरोक्त से वितीय परि की वेबसाइ और स्टॉक <b>रधान : नई 1</b> दिनांक : 10	णामों के विस्तृत प्रारूप का ट www.tfalitd.com पर उप नियमों के विनियम 52(4) एक्सचेंज की वेबसाइट ww दिल्ली नवंबर, 2023 HA Tel: Tel: +91-016 STATEMEN QU PART Revenue From Operati Other Income (a) Cost of materials cc (b) Purchases of Stock (c) Changes in invento work in progress an (d) Employee benefits (e) Finance Cost (f) Depreciation and An (g) Other expenses Y Profit / (Loss) before or Exceptional Items	लख है । में संदर्भित अन्य लाइन आइटम वे w.nseindia.com और www.bseind Regd. Office : 72-77, HSIDC 81-226645, Fax: + 91-01681-225 JARTER AND HALF ICULARS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS Inc	ে (ए, नेशनल ia.com और के Industrial Est Stot E-mail: in UNAUDI YEAR EN 30.09.2023 Unaudited 1,140.71 30.70 1,171.41 699.59 0.00 65.00 108.95 0.54 186.50 1,078.58 92.83 49.08	स्टॉक एक्सचे पनी को येवस (Tel को येवस (Tel को येवस) (TED FIN (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Selective) (Sel	इट www.tfciltd कृते CALS I ad, Jind - 126 hem.com; Wet ANCIAL 30.09.2022 Unaudited 986.97 31.51 1,018.48 692.95 0.00 22.17 104.09 0.36 18.00 125.95 963.52 963.52 963.52 963.52	بوته رومبرغن           دونه رومبرغن           رومبر ستخذ	में प्रासंगिक खु जा सकते हैं । स कार्योरेशन : (अनुष बाली) 5 निदेशक एवं D HARY b	स् किए ग औष इंडिय सीएफओ के किए म ह Ended 03.2023 udited 247.88 117.31 365.19 085.33 0.00 -22.64 379.81 4.86 586.78 111.82 253.37 0.00
रिकार्ड में ति 2. उपरोक्त से वित्तीय परि की वेबसाइ और स्टॉक <b>स्थान : नई ति</b> <b>दिनांक : 10</b>	णामों के विस्तृत प्रारूप का ट www.tfaltd.com पर उप नियमों के विनियम 52(4) एक्सचेंज की वेबसाइट ww विल्ली नर्वबर, 2023 HA Tel: Tel: +91-016 STATEMEN QU PART Revenue From Operati Other Income I Expenses (a) Cost of materials oc (b) Purchases of Stock (c) Changes in invento work in progress an (d) Employee benefits (e) Finance Cost (f) Depreciation and An (g) Other expenses Profit / (Loss) before at Profit / (Loss) before ta I Tax expense	नक्स है । में संदर्भित अन्य लाइन आइटम के w.nseindia.com और www.bseind RYANA LEATH ICULARS IncularS Insumed Intrade ises of finished goods, i stock-in-trade ispense Intel Expenses III (a to g)	ि लिए, नेशनल lia.com और के /4999HR1988 Industrial Est Industrial Est Industrial Est Industrial Est UNAUDI YEAR EN 30.09.2023 30.09.2023 (0.1017) YEAR EN 0.000 (0.500) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54) (0.54)	स्टोंक एक्समें पनी की येवस <b>EEMIIC</b> <b>FECO19905</b> tte, Hansi Rc foo@eathrect <b>TED FIN</b> <b>DED ON</b> <b>30.6.2023</b> <b>Unaudited</b> <b>1.1101.65</b> 24.30 <b>1.125.95</b> 826.67 0.00 -23.62 114.47 0.62 19.00 128.22 <b>1.066.36</b> 59.59 0.00 59.59	इट www.tfciltd कृते CALSSI ad, Jind - 1266 beem.com; Web ANCIAL 30192022 Unaudited 986.97 31.51 1,018.48 692.95 0.00 22.17 104.09 0.36 18.00 125.95 963.52 54.96 -49.08 104.04	بوته بومبرقان           دونه بومبرقان           بواهم بوامم بواهم بوامم ب	में प्रासंगिक खु ना सकते हैं । स कार्पोरेशन : (अनुष बाली) निदेशक एवं DHARY therchem.com FOR THE s except per shar Ended Yea 0.09.2022 31.1 Jnaudited A 2,150.91 4, 61.80 2,212.71 4, 61.80 2,212.71 4, 61.80 2,212.71 4, 1,660.22 3, 0.00 29.37 206.41 2,75 36.00 269.50 2,104.25 4 108.46 0.00	e amount) r Ended 33.0023 willed 247.88 117.31 365.19 085.33 0.00 -22.64 379.81 4.86 77.68 566.78 1.11.82 253.37 0.00 253.37 0.00
रिकार्ड में ति 2. उपरोक्त से वितीय परि की वेबसाइ और स्टॉक <b>रथ्यान : नई 1</b> <b>दिनांक : 10</b>	णामों के विस्तृत प्रारूप का ट www.tfalld.com पर उप नियमों के विनियम 52(4) एक्सचेंज की वेबसाइट ww दिल्ली नवंबर, 2023 HA Tel: Tel: +91-016 STATEMEN QU PART Revenue From Operati Other Income I Expenses (a) Cost of materials cc (b) Purchases of Stock (c) Changes in invento work in progress and (d) Employee benefits (e) Finance Cost (f) Depreciation and An (g) Other expenses I Exceptional Items Profit / (Loss) before ter Exceptional Items 1 Profit / (Loss) before ter Exceptional Items 1 Profit / (Loss) before ter I Exceptional Items 1 Profit / (Loss) before ter Exceptional Items (f) Current Tax	लख है । में संदर्भित अन्य लाइन आइटम वे w.nseindia.com और www.bseind Regd. Office : 72-77, HSIDC 81-226645, Fax: + 91-01681-225 JARTER AND HALF ICULARS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS IncularS Inc	ि लिए, नेशनल ia.com और के Ia.com और के Industrial Est Stot E-mail: in UNAUDI YEAR EN 30.09.2023 Unaudited 1,140.71 30.70 1,171.41 699.59 0.00 65.00 108.95 0.54 186.50 1,078.58 92.83 49.08 43.75 15.00	स्टोंक एक्सचे पनी को येवस (Tel को येवस) (SPLC019905 tae, Hansi Re fo@leatherch DED f00 (SPLC019905 tae, Hansi Re fo@leatherch DED f00 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905 (SPLC019905	इट www.tfciltd कृते CALS I ad, Jind - 126 hem.com; Wet ANCIAL 30019.2022 Unaudited 986.97 31.51 1,018.48 692.95 0.00 22.17 104.09 0.36 18.00 125.95 963.52 963.52 54.96 -49.08 104.04 11.16	المالية         المالية           المالية	में प्रासंगिक खु जा सकते हैं । स कार्योरेशन : (अनुष बाली) 5 निदेशक एवं D HARY FOR THE 5 cs except per shar 5 cs except per shar 6 cs except per shar 7 cs except per shar 8 cs except per shar 7 cs except per shar 7 cs except per shar 8 cs except per shar 9 cs except per shar 1,560.22 3, 0.00 29.37 206.41 2,75 36.00 299.50 2,104.25 4 108.46 0.00 108.46 0.00	मासे किए ग         ऑफ इंटिय         सीएफओ         किएफओ         किर्टा के किए ग         किर्टा के किर्टा किर ग         किर्टा के किर ग
रिकार्ड में ति 2. उपरोक्त से वित्तीय परि की वेबसाइ 3. लिस्टिंग वि और स्टॉक स्थान : नई विनांक : 10	णामों के विस्तृत प्रारूप का ट www.tfolld.com पर उप नियमों के विनियम 52(4) एक्सचेंज की वेबसाइट ww बिल्ली नवंबर, 2023 HA Tel: Tel: +91-016 STATEMEN QU PART Revenue From Operati Other Income (b) Purchases of Stock (c) Changes in Invento Work in progress an (d) Cost of materials oc (b) Purchases of Stock (c) Changes in Invento work in progress an (d) Other expenses (e) Finance Cost (f) Depreciation and An (g) Other expenses (h) Profit / (Loss) before of Exceptional Itams 1 Profit / (Loss) before ta 1 Tax expense (1) Current Tax (2) Deferred Tax (3) Tax for earlier years	लख है । में संदर्भित अन्य लाइन आइटम वे w.nseindia.com और www.bseind RYANA LEATH Regd. Office : 72-77, HSIDC 31-226645, Fax:+91-01681-22 T OF STANDALONE JARTER AND HALF ICULARS ons Total Income (I+II) insurned in-trade ise of finished goods, 5 stock-in-trade expense Total Expenses III (a to g) coeptional items & tax (I+II-III) x and after exceptional items (IV-V)	ि लिए, नेशनल lia.com और के IER CH 74999HR1982 Industrial Esta 301 E-mail: In <b>UNAUDI</b> <b>YEAR EN</b> <b>30.09.2023</b> <b>30.09.2023</b> <b>30.09.2023</b> <b>30.09.2023</b> <b>1078.01</b> <b>1078.01</b> <b>1078.01</b> <b>1078.58</b> <b>92.83</b> <b>49.08</b> <b>43.75</b> <b>15.00</b> <b>15.00</b> <b>1.50</b> <b>0.00</b>	स्टॉक एक्समें पनी की येवस <b>EEMIIC</b> <b>FECI9905</b> tte, Hansi Rc foo@eatheret <b>TED FIN</b> <b>DED ON</b> <b>ST</b> <b>Unardire Endec</b> <b>30.6.2023</b> <b>Unaudiret</b> <b>11.101.85</b> 24.30 <b>1.125.95</b> 826.67 0.00 -23.62 19.00 129.22 19.00 129.22 19.00 129.59 0.00 59.59 0.00 59.59 0.00 59.59 0.00	इट www.tfciltd कृते CALSSI ad, Jind - 1266 ANCIAL 30.09.2022 Unaudited 986.97 31.51 1,018.48 692.95 0.00 22.17 104.09 0.36 18.00 125.95 963.52 54.96 -49.08 104.04 11.16 1.50 0.00	المحتوف         المحتوف           المحتوف	में प्रासंगिक खु ना सकते हैं । स कार्पोरेशन : (अनुप नाली) निदेशक एवं Ended Yea 0.09.2022 31.1 Jnaudited Yea 0.09.2022 31.1 Jnaudited Yea 2.212.71 4, 61.80 2.212.71 4, 61.80 2.212.71 1,560.22 3, 0.00 29.37 206.41 2.75 36.00 269.50 2.75 36.00 269.50 2.108.46 0.00 108.46 0.00 108.46 0.00 108.46	सों फ इंडिय           ऑफ इंडिय           सीएफओ           के क
रिकार्ड में ति 2. उपरोक्त से वित्तीय परि की वेबसाइ 3. लिस्टिंग वि और स्टॉक स्थान : नई विनांक : 10	णामों के विस्तृत प्रारूप का द www.tfalitd.com पर उप नियमों के विनियम 52(4) एक्सचेंज की वेबसाइट ww दिल्ली नवंबर, 2023 HA Tel: Tel: +91-016 STATEMEN Qu PART Revenue From Operati Other Income (a) Cost of materials cc (b) Purchases of Stock (c) Changes in inventor work in progress an (d) Employee benefits ( (e) Finance Cost (f) Depreciation and An (g) Other expenses (e) Profit / (Loss) before an Exceptional Items Profit / (Loss) before ta (1) Tax expense (1) Current Tax (2) Deferred Tax (3) Tax for earlier years (1) Current Tax (2) Deferred Tax	লথ है । में संदर्भित अन्य लाइन आइटम वे w.nseindia.com और www.bseind Regd. Office : 72-77, HSIDC II-226645, Fax:+91-01681-225 DARTER AND HALF ICULARS ICULARS ICULARS ISON Total Income (I+II) Insumed in-trade ise of finished goods, 1 istock-in-trade ispense Total Expenses III (a to g) icoptional items & tax (I+II-III) x and after exceptional items (IV-V) III (IV-VII)	ि लिए, नेशनल lia.com और के r4999HR1983 r4999HR1983 r4999HR1983 r4999HR1983 r4999HR1983 r4994 r4994 r4994 r494 r494 r494 r494	स्टॉक एक्समं पनी की येवस <b>EEMIO</b> <b>FLC019905</b> <b>FLC019905</b> <b>TED FIN</b> <b>DED ON</b> <b>ST</b> <b>TED FIN</b> <b>DED ON</b> <b>ST</b> <b>1,128</b> 24.30 <b>1,128</b> 24.30 <b>1,128</b> 24.30 <b>1,128</b> 24.30 <b>1,128</b> 25 <b>1,128</b> 5 <b>2,59</b> <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,128</b> 5 <b>1,5</b> 5 <b>1,5</b> 5 <b>1,5</b> 5 <b>1,5</b> 5 <b>1,5</b> 5 <b>1,5</b> 5 <b>1,5</b> 5 <b>1,5</b> 5 <b>1,5</b> 5 <b>1,5</b> 5 <b>1,5</b> 5 <b>1,5</b> 5 <b>1,5</b> 5 <b>1,5</b> 5 <b>1,5</b> 5 <b>1,5</b> 5 <b>1,5</b> 5 <b>1,5</b> 5 <b>1,5</b> 5 <b>1,5</b> 5 <b>1,5</b> 5 <b>1,5</b> 5 <b>1,51</b> <b>1,51</b> <b>1,51</b> <b>1,51</b> <b>1,511</b> <b>1,51</b> <b>1111111111111</b>	इट www.tfciltd कृते CALS I ad, Jind - 126 hem.com; Wet ANCIAL 30.09.2022 Unaudited 986.97 31.51 1,018.48 692.95 0.00 22.17 104.09 0.36 18.00 125.95 963.52 54.96 104.04 111.16 1.50	دَرَّتُه رَحَمَّتُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ	में प्रासंगिक खु ना सकते हैं । स कार्पोरेशन स (अनुप बाली) ि निदेशक एवं ED HARY therchem.com FOR THE Comparison FOR THE Comparison FOR THE Comparison Comparison FOR THE Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Compori Comparison Comparison Compa	वासे किए ग           ऑफ इंठिय           सीएफओ           कार्य इंठिय           सीएफओ           कार्य इंठिय